

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2014—पौष 25, शक 1935

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. एफ-65-01-2013-तीन-88—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरीय निकायों के महापौर / अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन, 2013-14 में दिनांक 8 जनवरी, 2014 को निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

स.क्र.	नगरपालिक निगम/नगर परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक	केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	नगरपालिक निगम, सागर, जिला सागर	महापौर	-	-	-	पुष्पा डा. ओ. पी. शिल्पी
2	नगर परिषद्, मझौली, जिला सीधी	अध्यक्ष	-	-	-	गीता-मोहन सोनी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.